

Division 101

REGISTERED No. D. 231

Access No. IOD-11074

Date 25.6.76

Page 1

Date 25.6.76



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76] नई दिल्ली, सोमवार, अग्रज 2, 1973/चैत्र 12, 1895

No. 75] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 1973/CHAITRA 12, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 2nd April 1973

SUBJECT:—Import Policy for the year April, 1973—March, 1974.

No. 46-ITC (PN)/73.—The Import Trade Control Policy for the year April 1973—March 1974 is contained in Volumes I and II annexed to this Public Notice.

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1973

विषय:—अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 वर्ष के लिये आयात नीति।

संख्या 46-आई० टी० सी० (पी० एन०)/73.—अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 वर्ष के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति इस सार्वजनिक सूचना में संलग्न वा० 1 तथा 2 में निहित है।

SUBJECT.—*Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure 1973-74.*

No. 47-ITC (PN)/73.—A revised edition of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure is issued under this Public Notice.

विषय.—आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रिया विधि हैण्ड बुक, 1973-74

संख्या 47-आई० टी० सी (पी० एन०)/73.—आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रिया विधि हैण्ड बुक का परिशोधित संस्करण इस सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत जारी किया जाता है।

SUBJECT :—*Books, magazines and journals—Import Policy for the year April 1973—March 1974*

No. 51-ITC (PN)/73.—Attention is invited to the Import Policy for books, magazines and journals (S. Nos. 169-170 (IV) as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for April 1973—March 1974, announced under Ministry of Commerce Public Notice No. 46-ITC (PN)/73 dated 2-4-73.

2. The following amendments shall be made in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for April 1973—March 1974 at the appropriate places :—

Page No. of Vol. I of the Red Book.	Reference	Details of amendments
90	Section IV, S. Nos. 169-170/IV Column 3.	<i>For "150% plus supplementary licences." Read "100% plus supplementary licences."</i>
185	Section V, Appendix 21, para 1, line 2.	<i>For "150 per cent" Read "100 per cent"</i>
186	Section V, Appendix 21	<p>(1) The existing sub-paragraph 7(c) may be deemed to have been substituted by the following :—</p> <p>"7(c) Licences will be issued on the following basis :—</p> <p>(i) In the case of applicants who had been in the internal trade of books for one complete year within the period specified under paragraph (a) above, 20 per cent of their annual purchase turnover as certified by the Chartered Accountant or Rs. 2 lakhs whichever is more ;</p> <p>(ii) In the case of applicants who had been in the internal trade of books for two consecutive complete years within the period specified under paragraph (a) above, 30 per cent of their annual purchase turnover as certified by the Chartered Accountant or Rs. 3 lakhs whichever is more ;</p> <p>(iii) In the case of applicants who had been in the internal trade of books for three consecutive complete years or more within the period specified under paragraph (a) above, 40 per cent of their annual purchase turnover as certified by the Chartered Accountant or Rs. 4 lakhs whichever is more.</p>

Page No. of Vol. I of the Red Book	Reference	Details of amendments
		<p>(2) The existing Sub-paragraph 8 (i) (e) may be deemed to have been substituted by the following:—</p> <p>“8(i) (e)—A certificate from the Chartered Accountant showing the following particulars :—</p> <p>(i) Name of the books printed on the imported newsprint.</p> <p>(ii) The size of the book, the total number of pages in each book.</p> <p>(iii) Total print run for each title.</p> <p>(iv) Total quantity of newsprint imported, its size and grammage and account of its utilization.</p> <p>(v) Quantity and value of imported newsprint, in hand.</p> <p>(vi) The value of unutilized licence for newsprint.”</p> <p>(3) The existing para 9 may be deemed to have been substituted by the following:—</p> <p>“9. The importers should send to the Ministry of Education and Social Welfare, New Delhi, a copy each of all indents and invoices in respect of the titles imported by them during 1971-72 and 1972-73 along with a summary of such titles of which 200 or more copies have been imported by them in 1972-73. The summary should indicate the full name of the author, the title, the price, actual quantities imported and the total value of such imports during 1972-73. This requirement shall apply only to those Importers who had obtained quota and supplementary licences for S.Nos. 169-70/IV for a total value of Rs. 10 lakhs or more during 1972-73.”</p>
188-189	Section V, Appendix 21, List II	The existing List II may be deemed to have been substituted by the revised List II as incorporated in the Annexure to this Public Notice.

ANNEXURE

LIST—II

Standard technical books or books of reference concerning law and legal practice or for use in connection with medical practice, scientific research or industrial process the import of which will be permitted against supplementary licences issued for S. Nos. 169-170/IV—Categories of.

1. Agricultural Science & Animal Husbandry.
 - (a) Animal Husbandry/Livestock
 - (b) Agricultural Botany
 - (c) Horticulture & Gardening
 - (d) Dairy Farming and Dairy products.
 - (e) Entomology
 - (f) Forestry & Wood Technology
 - (g) Plant Pathology & Cytology
 - (h) Poultry Farming
 - (i) Stock Breeding & Fisheries
 - (j) Canning & Preservation of fruits and fruit products

- (k) Sericulture
 - (1) Bee keeping.
- 2. Applied & Fine Arts.
 - (a) Handicrafts
 - (b) Photography & Reprography
 - (c) Commercial Arts
 - (d) Civic and Landscape Arts
 - (e) Plastic and Graphic Arts
 - (f) Furnishing and Interior Decoration
 - (g) Dance, Drama, Stage Craft and Choreography
 - (h) Music (both Vocal & Instrumental)
 - (i) Painting and Drawing
 - (j) Modelling and Sculpture.
- 3. Applied Science.
 - (a) Archaeology
 - (b) Museology
 - (c) Archival Science
 - (d) Printing, Binding & Publishing
 - (e) Journalism.
 - (f) Library Science.
- 4. Business Organisation, Industrial Management and Public Administration.
 - (a) Accounting/Auditing/Accountancy
 - (b) Business Management
 - (c) Banking & Finance
 - (d) Commerce
 - (e) Publicity and Advertisement
 - (f) Sales & Distribution
 - (g) Civil & Public Administration
 - (h) Organisations & Methods.
- 5. Education.
 - (a) Educational Psychology
 - (b) Pedagogy—Theory & Practice
 - (c) Physical Education & Recreation
 - (d) Teaching Arts.
- 6. Engineering & Technology.
 - (a) Aeronautics
 - (b) Town & Country Planning & Architecture.
 - (c) Chemical Engineering & Technology
 - (d) Automobile Engineering
 - (e) Electrical Engineering
 - (f) Electronics, Radio, Wireless & Television
 - (g) Mechanical Engineering
 - (h) Mining Engineering
 - (i) Nuclear Energy
 - (j) Petroleum Engineering
 - (k) Textile Engineering
 - (l) Material Engineering
 - (m) Nuclear Engineering & Technology
 - (n) Hydraulics
 - (o) Telecommunication
 - (p) Civil and Structural Engineering
 - (q) Highway Engineering
 - (r) Transport Engineering
 - (s) Refrigeration & Pneumatic Technology
 - (t) Workshop Practice
 - (u) Machine & Machine Tools Designing and Construction
 - (v) Instrument Technology
 - (w) Mineral Engineering
 - (x) Automation and Servo-Mechanism
 - (y) Cybarnetics
 - (z) Metallurgy
 - (aa) Textile Technology
 - (bb) Manufacturing Process
 - (cc) Plastic Technology
 - (dd) Silicate Technology
 - (ee) Ceramics
 - (ff) Leather Technology
 - (gg) Agricultural Engineering

- (hh) Applied Geology & Geophysics
- (ii) Naval Architecture & Dockyard Construction.
- (jj) Reproduction Engineering
- (kk) Assembly & Construction Technology
- (ll) Space Research & Satellite Engineering.

7. Humanities

- (a) Civics
- (b) Philosophy—Eastern & Western
- (c) Logic
- (d) History
- (e) Geography & Cartography
- (f) Law & Legal Affairs (National & International)
- (g) Ontology & Methodology
- (h) Ethics.

8. Medical Sciences

- (a) Anatomy & Physiology
- (b) Childcare & Pediatrics
- (c) Dentology
- (d) Ear, Nose and Throat
- (e) Embryology
- (f) Health
- (g) Gynaecology & Obstetrics
- (h) Nursing
- (i) Histology
- (j) Ophthalmology
- (k) Psychiatry
- (l) Pharmacology
- (m) Pharmacy
- (n) Therapeutics & Toxicology
- (o) Medicine
- (p) Surgery
- (q) Biology
- (r) Biochemistry.

9. Military Sciences and its History

- (a) Air, Naval & Military Engineering and Technology
- (b) Arms & Ammunition & equipment
- (c) Military History
- (d) Military Strategies & Modern Techniques of Warfare.

10. Pure Sciences

- (a) Physics
- (b) Chemistry
- (c) Mathematics
- (d) Statistics & Documentation
- (e) Astronomy & Allied Sciences
- (f) Soil Sciences
- (g) Palentology
- (h) Zoology
- (i) Geology
- (j) Botany.

11. Reference Books

- (a) Bibliographies
- (b) Who's Who & Current Affairs
- (c) Gazetteers
- (d) Encyclopaedia
- (e) Dictionaries
- (f) Atlases
- (g) Language & Phrase Books
- (h) Books in print s & Catalogues
- (i) Books on classification of books
- (i) Grammar Books.

12. Social Sciences
- (a) Psychology including para & Pseudo Psychology.
 - (b) Anthropology
 - (c) Political Sciences
 - (d) Economics
 - (e) Home Sciences
 - (f) Sociology & Social Institutions
 - (g) Culture & Civilisation
13. Text-Books recommended in Universities, Institutions of Higher Learning & Schools
- Subjects prescribed by various Universities and Schools.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय .—पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा अखबार—अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 के लिये आयात नीति ।

संख्या 51-आई०टि० सी० (पी एन)/73.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 46—आई० टी० सी० (पी एन)/73, दिनांक 2-4-1973 के अन्तर्गत अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 के लिये घोषित आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैड बुक वा० 1) में पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा अखबारों के लिये यथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैड बुक वा० 1) में उचित स्थानों पर किये जाएंगे :—

रैड बुक वा० 1 की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधनों के ब्यौरे
1	2	3
90	खंड 4, क्रम सं० 169- 170/4 कालम 3	“150 प्रतिशत तथा पूरक लाइसेंसों” के लिये “100 प्रतिशत तथा पूरक लाइसेंस” पढ़ ।
185	खंड 5, परिशिष्ट 21/ कंडिका 1, पंक्ति-2	“150 प्रतिशत” के लिये “100 प्रतिशत” पढ़ें ।
186	खंड 5, परिशिष्ट 21	वर्तमान उपकंडिका 7(सी) को निम्नलिखित द्वारा प्रति- स्थापित किया गया समझा जाए :— “(सी) लाइसेंस निम्नलिखित आधार पर जारी किये जाएंगे :— (1) उन आवेदकों के मामले में, जिन्होंने ऊपर की कंडिका (ए) में विशिष्टीकृत अवधि के भीतर पूरे एक वर्ष के लिये पुस्तकों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार किया था, सनदी लेखापाल द्वारा यथा प्रमाणित उनके वार्षिक खरीद आगम का 20 प्रतिशत या दो लाख रुपये—इनमें जो भी अधिक हो ;

1

2

3

(2) उन आवेदकों के मामले में, जिन्होंने ऊपर की कंडिका (ए) में विशिष्टीकृत अवधि के भीतर लगातार पूरे दो वर्षों के लिये पुस्तकों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार किया था, सनदी लेखापाल द्वारा यथा प्रमाणित उनके वार्षिक खरीद आगम का 30 प्रतिशत या तीन लाख रुपये—इनमें जो भी अधिक हो;

(3) उन आवेदकों के मामले में, जिन्होंने ऊपर की कंडिका (ए) में विशिष्टीकृत अवधि के भीतर लगातार पूरे तीन वर्षों या इससे अधिक के लिये पुस्तकों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार किया था, सनदी लेखापाल द्वारा यथा प्रमाणित उनके वार्षिक खरीद आगम का 40 प्रतिशत या चार लाख रुपये—इनमें जो भी अधिक हो ।

(2) वर्तमान उप-कंडिका 8(1)(ई) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :—

“8(1)(ई)—

निम्नलिखित विवरणों को प्रवर्णित करते हुए सनदी लेखापाल का प्रमाणपत्र :—

(1) आयातित अखबारी कागज पर छापी गई पुस्तकों का नाम ।

(2) पुस्तकों का आकार, प्रत्येक पुस्तक में पृष्ठ संख्या ।

(3) प्रत्येक शीर्षक के लिये कुल छपाई ।

(4) आयातित अखबारी कागज की कुल मात्रा, इसका आकार तथा ग्राम में वजन और इसका प्रयोजन ।

(5) अभी जो आयातित अखबारी कागज है, उसकी मात्रा और मूल्य ।

(6) अखबारी कागज के लिये लाइसेंस का उपयोग किया गया मूल्य ।

(3) वर्तमान कंडिका 9 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :—

“9 आयातकों को शिक्षा तथा कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को उनके द्वारा 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान आयातित शीर्षकों के सम्बन्ध में

1

2

3

सभी मांग पत्रों तथा बीजकों की एक एक प्रति भेजनी चाहिये तथा उनके द्वारा 1972-73 के दौरान 200 या इससे अधिक इस प्रकार के आयातित शीर्षकों का एक सार संक्षेप में भेजना चाहिये। सार संक्षेप में लेखक का पूरा नाम, शीर्षक, कीमत, आयात की गई वास्तविक मात्राएं और 1972-73 के दौरान इस प्रकार के आयातों का कुल मूल्य। यह जरूरत केवल ऊंहीं आगतों के लिये लागू होगी जिन्होंने 1972-73 के दौरान क्रम संख्या 169-170/4 के लिये कुल मूल्य 10 लाख रुपये या इससे अधिक के लिये कोटा तथा पूरक लाइसेंस प्राप्त किये थे।

188 खंड-5, परिशिष्ट

189 21, सूची-2

वर्तमान सूची-2 को हम सार्वजनिक सूचना के लिये अनुबन्ध में यथा निहित वर्तमान सूची-2 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाये।

अनुबन्ध

सूची-2

मानक तकनीकी पुस्तकें या विधि तथा वैज्ञानिक व्यवसाय से सम्बद्ध संदर्भ पुस्तकें या चिकित्सा व्यवसाय, वैज्ञानिक अनुसंधान या औद्योगिक प्रक्रम के सम्बन्ध में उपयोग के लिए पुस्तकें जिनके आयात की अनुमति क्रम संख्या 169-170/4 के लिए जारी किये गये अनुपूरक लाइसेंसों के आधार पर दी जाएंगी—की श्रेणियाँ—

1. कृषि विज्ञान और पशु पालन :

- (क) पशुपालन/पशुमम्पत्ति
- (ख) कृषि वनस्पति विज्ञान
- (ग) उद्यान कृषि और बागवानी
- (घ) डेरी कृषि कर्म और डेरी उत्पाद
- (ङ) कीट विज्ञान
- (च) भ्ररण्य शास्त्र और काष्ठ शिल्प विज्ञान
- (छ) वनस्पति रोग निदान शास्त्र और कायाणु विज्ञान
- (ज) मुर्गी पालन
- (झ) पशु प्रजनन और मत्स्य कर्म
- (ञ) फलों और फल-उत्पादों की डिब्बाबंदी और परिरक्षण
- (ट) रेशम उत्पादन
- (ठ) मधु-मक्खी पालन

2. व्यावहारिक तथा ललित कलाएं :

- (क) हस्त शिल्प
- (ख) फोटोग्राफी रेसोग्राफी
- (ग) वाणिज्यिक कलाएं
- (घ) नागरिक और भूदृश्य कलाएं
- (ङ) प्लास्टिक और ग्राफिक कलाएं
- (च) संजोकरण और अन्तः सजावट
- (छ) नृत्य, नाटक, रंगमंच शिल्प और नृत्यलेखन
- (ज) संगीत (गायन तथा यांत्रिक दोनों)
- (झ) चित्रकारी और आलेखन
- (झ) माडल और मूर्तिकला

3. व्यावहारिक विज्ञान :

- (क) पुरातत्व विज्ञान
- (ख) संग्रहालय विज्ञान
- (ग) अभिलेखीय विज्ञान
- (घ) मद्रण, जिल्दबंदी और प्रकाशन
- (ङ) पत्रकारिता
- (च) पुस्तकालय विज्ञान

4. व्यवसाय, संगठन, औद्योगिक प्रबन्ध और सार्वजनिक प्रशासन :

- (क) लेखा/लेखा परीक्षा/लेखाशास्त्र
- (ख) व्यवसाय प्रबन्ध
- (ग) बैंक प्रणाली तथा वित्त
- (घ) वाणिज्य
- (ङ) प्रकाशन और विज्ञापन
- (च) बिक्री और वितरण
- (छ) सिविल और पब्लिक प्रशासन
- (ज) संगठन और पद्धतियां

5. शिक्षा :

- (क) शैक्षिक मनोविज्ञान
- (ख) शिक्षा शास्त्र—सिद्धान्त तथा प्रयोग
- (ग) भौतिक शिक्षा तथा मनोरंजन
- (घ) पढ़ाने की कलाएं

6. इंजीनियरी तथा प्राद्योगिकी :

- (क) वैमानिकी
- (ख) नगर तथा ग्राम योजना तथा वास्तुशिल्प
- (ग) रसायन इंजीनियरी तथा प्राद्योगिकी
- (घ) आटोमोबाइल इंजीनियरी
- (ङ) विद्युतीय इंजीनियरी

- (च) इलेक्ट्रानिकी, रेडियो, वायरलेस और टेलीविजन
- (छ) यांत्रिकी इंजीनियरी
- (ज) खनन इंजीनियरी
- (झ) परमाणु, ऊर्जा
- (ञ) पेट्रोलियम इंजीनियरी
- (ट) वस्त्र इंजीनियरी
- (ठ) भौतिक इंजीनियरी
- (ड) परमाणु इंजीनियरी तथा प्राद्योगिकी
- (ढ) द्रवचालित इंजीनियरी
- (ण) दूर संचार
- (त) सिविल तथा निर्माण इंजीनियरी
- (थ) राजमार्ग इंजीनियरी
- (द) परिवहन इंजीनियरी
- (ध) प्रशीतक तथा वायुवीय प्राद्योगिकी
- (न) कारखाना व्यवसाय
- (प) मशीन तथा मशीन औजार डिजाइन तथा निर्माण
- (फ) यंत्र प्राद्योगिकी
- (ब) खनिज इंजीनियरी
- (भ) फ्राटोमेशन तथा सर्वो-मैकेनिज्म
- (म) साह्यारनेटिक्स
- (कक) धातु विज्ञान
- (खख) वस्त्र प्राद्योगिकी
- (गग) विनिर्माण प्रक्रम
- (घघ) प्लास्टिक प्राद्योगिकी
- (ङङ) सिलिकेटी प्राद्योगिकी
- (चच) मृत्तिका
- (छछ) चर्म प्राद्योगिकी
- (जज) कृषि इंजीनियरी
- (झझ) व्यावहारिक भूगर्भ विज्ञान तथा भू-भौतिक विज्ञान
- (ञञ) नौ वास्तुशिल्प तथा डोकयार्ड निर्माण
- (टट) पुनरुत्पादन इंजीनियरी
- (ठठ) संयोजन तथा निर्माण प्राद्योगिकी
- (डड) अंतरिक्ष अनुसंधान तथा उप-ग्रह इंजीनियरी

7. मानविकी :

- (क) नागरिक शास्त्र
- (ख) दर्शन शास्त्र (पूर्वी तथा पश्चिमी)
- (ग) तर्क शास्त्र
- (घ) इतिहास
- (ङ) भूगोल तथा मानचित्र कला
- (च) विधि और वैधानिक मामले (राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय)

- (छ) जीव विकास विज्ञान और रीति विज्ञान
- (ज) सौंदर्य शास्त्र

8. चिकित्सा विज्ञान :

- (क) शरीर-रचना तथा शरीर क्रिया विज्ञान
- (ख) शिशु सेवा तथा बालचिकित्सा
- (ग) दन्तचिकित्सा विज्ञान
- (घ) कान, नाक तथा गला
- (ङ) भ्रूण-विज्ञान
- (च) स्वास्थ्य
- (छ) स्त्री-रोग-विज्ञान तथा प्रसूति विज्ञान
- (ज) उपचर्या
- (झ) ऊतक-विज्ञान
- (न) नेत्र-विज्ञान
- (ट) मनोविकृति विज्ञान
- (ठ) श्रोत्र-विज्ञान
- (ड) श्रोत्र-निर्माण-विज्ञान
- (ढ) चिकित्सा-विज्ञान तथा टेक्सिकालाजी
- (ण) चिकित्सा
- (त) शल्य चिकित्सा
- (थ) जीव-विज्ञान
- (द) जीव-रसायन

9. सैनिक-विज्ञान तथा इसका इतिहास :

- (क) वायु, नौसेना तथा सैनिक अभियांत्रिक तथा शिल्प विज्ञान
- (ख) हथियार तथा गोला बारूद तथा उपकरण
- (ग) सैनिक इतिहास
- (घ) सैनिक युद्ध-नीति तथा युद्ध की आधुनिक कार्य प्रणाली

10. विशुद्ध विज्ञान :

- (क) भौतिकी
- (ख) रसायन
- (घ) गणित
- (ङ) सांख्यिकी तथा प्रलेखन
- (ङ) ज्योतिष तथा सम्बद्ध विज्ञान
- (च) मृद् विज्ञान
- (छ) पैलेन्टोलॉजी
- (ज) जन्तुविज्ञान
- (झ) भू-विज्ञान
- (ञ) वनस्पति-विज्ञान

11. संदर्भ पुस्तकें :

- (क) संदर्भिका
- (ख) कौन क्या है तथा आजकल के हाल चाल
- (ग) गजटियर
- (घ) विश्वकोष
- (ङ) शब्दकोष
- (च) मानचित्र
- (छ) भाषा तथा मुहाबरे की पुस्तकें
- (ज) छपी हुई पुस्तकें तथा सूची-पत्र
- (झ) पुस्तकों के वर्गीकरण सम्बन्धी पुस्तकें
- (ञ) व्याकरण की पुस्तकें

12. समाज-विज्ञान :

- (क) पारा तथा छद्म मनोविज्ञान सहित मनोविज्ञान
- (ख) मानवशास्त्र
- (ग) राजनीति-विज्ञान
- (घ) धर्म-शास्त्र
- (ङ) गृह-विज्ञान
- (च) समाज-शास्त्र तथा सामाजिक संस्थान
- (छ) संस्कृति और सम्प्रदाय

13. विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा संस्थानों विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा पाठशालाओं तथा पाठशालाओं में स्वीकृत पाठ्य- पुस्तकें : द्वारा निर्धारित विषय ।

एस० जी० बोस मल्लिक,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।